

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर 2014—भाद्र 17, शक 1936

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्र. एफ-20-2-2013-3-पच्चीस.—राज्य शासन, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 13-1/2009/5/पच्चीस, दिनांक 18 फरवरी, 2009 द्वारा गठित आदिम जाति मंत्रणा परिषद् को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् नियम, 1957 के नियम-3 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित करते हुए मंत्रणा-परिषद् का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

(1) माननीय मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
(2) माननीय मंत्री जी, आदिम जाति कल्याण विभाग	उपाध्यक्ष
(3) श्री कुंवर सिंह टेकाम, विधायक, 82-धौहनी, सीधी	सदस्य
(4) श्रीमती प्रमिला सिंह, विधायक, 84-जयसिंहनगर, शहडोल	सदस्य
(5) श्री जयसिंह मरावी, विधायक, 85-जैतपुर, शहडोल	सदस्य
(6) सुश्री मीना सिंह, मांडवे, विधायक, 90 मानपुर, उमरिया	सदस्य
(7) श्रीमती नंदनी मरावी, विधायक, 102-सिहोरा, जबलपुर	सदस्य
(8) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, विधायक 103-शहपुरा, डिण्डौरी	सदस्य
(9) श्री पंडित सिंह धुर्वे, विधायक, 105-बिछिया, मण्डला	सदस्य
(10) श्री रामप्यारे कुलस्ते, विधायक, 106 निवास, मण्डला	सदस्य
(11) श्री सज्जनसिंह उइके, विधायक, 132-घोड़ाडोंगरी, बैतूल	सदस्य

(12)	श्री चम्पालाल देवड़ा, विधायक, 174-बागली, देवास	सदस्य
(13)	श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादु, विधायक, 179-नेपानगर, बुरहानपुर	सदस्य
(14)	श्री अंतर सिंह रावजी आर्य, मंत्री, 187-सेंधवा, बड़वानी	सदस्य
(15)	श्री नागर सिंह चौहान, विधायक, 191-अलीराजपुर, अलीराजपुर	सदस्य
(16)	कु. निर्मला भूरिया, विधायक, 195-पेटलावद, झाबुआ	सदस्य
(17)	श्री वेलसिंह भूरिया, विधायक, 196-सरदारपुर, धार	सदस्य
(18)	श्री फगन सिंह कुलस्ते, सांसद, मण्डला	सदस्य
(19)	श्रीमती ज्योति धुर्वे, सांसद, बैतूल	सदस्य
(20)	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	सदस्य

2. उपरोक्त नवगठित आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान विधान सभा कालावधि तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीणा घाणेकर, सचिव.